



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 29, 2001/पाउ 8, 1923
No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 29, 2001/PAUSA 8, 1923

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कृषि विभाग

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2001

सा. का. नि. 684.—राष्ट्रपति, विभाग के अधूरे 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मात्स्यिकी संरक्षण (ज्येष्ठ मात्स्यिकी वैज्ञानिक) ज्येष्ठ मात्स्यिकी वैज्ञानिक (प्रबोधन और विस्तार), मात्स्यिकी वैज्ञानिक और सर्विस इंजीनियर (यांत्रिक) भर्ती नियम, 1987 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मात्स्यिकी संरक्षण (ज्येष्ठ मात्स्यिकी वैज्ञानिक/ज्येष्ठ मात्स्यिकी वैज्ञानिक (प्रबोधन और विस्तार), मात्स्यिकी वैज्ञानिक और सर्विस इंजीनियर (यांत्रिक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(4111)

2. भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण (ज्येष्ठ मात्स्यकी वैज्ञानिक) ज्येष्ठ मात्स्यकी वैज्ञानिक (प्रबोधन और विस्तार), मात्स्यकी वैज्ञानिक और सर्विस इंजीनियर (यांत्रिक) भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची में सर्विस इंजीनियर (यांत्रिक) के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
सर्विस इंजीनियर (यांत्रिक)	9* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसन्धित	8000-275-13500 रुपए
चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	
5	6	7	
लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण 1:—(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2:—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (य कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	नहीं	
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	
8	9	10	
आवश्यक	लागू नहीं होता	एक वर्ष	
(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक/समुद्री इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य। (2) समुद्री डीजल इंजनों के रख-रखाव, मरम्मत और चलाव/अंशज की मरम्मत और रख-रखाव में तीन वर्ष का अनुभव।			
टिप्पण 1:—अर्हताएं अन्यथा सुअहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।			

टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की वशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए अरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अशिक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अभिलेखन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता:

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अभिलेखन द्वारा भर्ती की वशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अभिलेखन किया जाएगा

11

12

सीधी भर्ती

लागू नहीं होता

पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी अर्थात् :—

- (क) जो नियमित आधार पर सक्षम पद धारण किए हुए हैं ;
- (ख) जिनके पास संध 8 के अन्वीत सीधे भर्ती किए जाने वाले शक्तियों के लिए विहित अर्हता और अनुभव है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में कितनी परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :—

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. संयुक्त सचिव, मात्स्यकी —अध्यक्ष
2. मात्स्यकी विकास आयुक्त —सदस्य
3. निदेशक (मात्स्यकी)/उप सचिव (मात्स्यकी) —सदस्य
4. महानिदेशक, भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण —सदस्य

[फा. सं. 2-23/99-मात्स्यकी (प्रशा.)]

के. पी. मल्होत्रा, अवर सचिव

पाठ टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 623, तारीख 15-8-1987 द्वारा प्रकाशित हुए थे और तत्पश्चात् उसमें सा. का. नि. 429, 23-9-1995, सा. का. नि. 740, तारीख 2-9-1999 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

New Delhi, the 20th December, 2001

G.S.R. 684.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Fishery Survey of India (Senior Fisheries Scientist/Senior Fisheries Scientist (Monitoring and Extension), Fisheries Scientists and Service Engineer (Mechanical) Recruitment Rules 1987, namely:—

1. (1) These rules may be called the Fishery Survey of India (Senior Fisheries Scientist/Senior Fisheries Scientist (Monitoring and Extension)/Fisheries Scientist and Service Engineer (Mechanical) Recruitment (Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Fishery Survey of India (Senior Fisheries Scientist/Senior Fisheries Scientist (Monitoring and Extension) Fisheries Scientist and Service Engineer (Mechanical) Recruitment Rules, 1987, for serial number 3 relating to the post of Service Engineer (Mechanical) and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
Service Engineer (Mech.)	9* (2001) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 8000-275-13,500
Whether selection by merit or selection-cum-seniority or Non-selection-post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible	
5	6	7	
Not applicable	Not exceeding 35 years Note 1 : Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2 : The crucial date for determining the Age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).	No	
Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	
8	9	10	
Essential:	Not applicable	1 year	
(i) Degree in Mechanical/Marine Engineering of a recognised University or equivalent.			

8	9	10
(ii) 3 years' experience in Maintenance, repairs and running of marine diesel engines/Ship repairs and maintenance.		
<p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
Direct recruitment	Not applicable
<p>Note : Vacancies caused by incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.</p> <p>(a) Holding analogous posts on regular basis;</p> <p>(b) Possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under Col. 8.</p>	

If a Departmental Promoton Committee exists what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering conformation)	Consultation with Union Public Service Commission necessary.
1. Joint Secretary, Fisheries—Chairman	
2. Fisheries Development Commissioner—Member	
3. Director (Fisheries)/Deputy Secretary (Fisheries)—Member	
4. Director General, Fishery Survey of India—Member	

[F.No. 2-23/99-FY (Admn.)]

K.P. MALHOTRA, Under Secy.

Note : The Principal rules were published in this Gazette of India vide GSR 623 dated 15-8-1987 and subsequently amended vide GSR 429 dated 23-9-1995, GSR 740 dated 2-9-1999.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2001

सा. का. नि. 685.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, और अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता (समूह ग) भर्ती नियम, 1990 को जिनका संबंध प्रयोगशाला सहायक के पद से है उन बातों के सिवाए अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता में प्रयोगशाला सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता समूह (ग) (प्रयोगशाला सहायक) भर्ती नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

लागू होना—ये नियम इसमें उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ में विनिर्दिष्ट पद/पदों को लागू होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान यह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा—

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, नियमों के किसी उपबंध को किसी धर्म या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अर्पित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
प्रयोगशाला सहायक	28* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ग अराजकृत अनुसूचिकीय	4500-125-7000 रु.

चयन-सह ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सेवा में जोड़ गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुसूच्य है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
5	6	7
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	<p>18-25 वर्ष</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय पर जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण—आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिये विहित की गई है।</p> <p>टिप्पण 2—रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिये कहा गया है।</p>
सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
बी एस सी जिसमें एक विषय रसायन शास्त्र/जीव विज्ञान हो के साथ किसी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला में तीन वर्ष का अनुभव या	लागू नहीं होता	दो वर्ष
बी एस सी जिसमें एक विषय रसायन शास्त्र/जीव विज्ञान हो, के साथ प्रयोगशाला या तकनीकी में डिप्लोमा।		

टिप्पण 1—अर्हताएं अन्यथा सुसंरक्षित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति . भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनिधुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनिधुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनिधुक्ति/आमेलन किया जायेगा

11

1-2

सीधी भर्ती द्वारा

लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा

13

14

समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के लिये) :—

लागू नहीं होता

1. अपर निदेशक—अध्यक्ष
2. एक समूह 'क' अधिकारी जिसे निदेशक द्वारा नाम निर्देशित स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कोलकाता में स्थित किसी अन्य कार्यालय/संस्थान में सीरम विज्ञान और रसायनिक परीक्षक केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला (के.अ.प्र.) केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला (के.खा.प्र.) आदि के रूप में हो—सदस्य
3. संबंधित विभाग का अध्यक्ष—सदस्य
4. प्रशासनिक अधिकारी—सदस्य

[सं. एक. ए.-12018/3/96-पी.एच. (के.अ.प्र.)]

के.बी.एस. राव, अपर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 19th December, 2001

G.S.R. 685.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta (Group 'C') Recruitment Rules, 1990, in so far as they relate to the post of Laboratory Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Laboratory Assistant in the All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta (Group 'C') (Laboratory Assistant) Recruitment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed thereto.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.—The method of the recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible

under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt by person from the operation of this rule.

5 Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be re-

corded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post 1	Number of post 2	Classification 3	Scale of pay 4
Laboratory Assistant	28* (2001) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4500-125-7000/-.
Whether selection by merit or selection-cum-seniority or Non-Selection post	Age limit for direct recruits		Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
5	6		7
N.A.	18-25 years. (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note 1 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2 : In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.		N.A.
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
8	9		10
B.Sc. with Chemistry/Biological Science as one of the subject with 3 years experience in a recognised Laboratory.	Not applicable.		Two years.

§

OR

B.Sc. with Chemistry/Biological Science as one of the subject with Diploma in Laboratory Technique.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

11

By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption is to be made

12

Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

13

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

14

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) :

Not applicable.

1. Additional Director — Chairman
2. One Group 'A' Officer nominated by the Director from other Office/Institute under Ministry of Health and Family Welfare located at Kolkata such as Office of the Serology and Chemical Examiner, Central Drug Laboratory (CDL), Central Food Laboratory (CFL), etc. — Member
3. Head of the concerned Department — Member
4. Administrative Officer — Member

[No. F.A. 12018/3/96 PH (CDL)]
K. V. S RAO, Under Secy.